

कमोडिटी मार्केट रिपोर्ट



राष्ट्रीय युवा दिवस

12 जनवरी



Moneywise. Be wise.



प्रमुख खबरें

- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 19,744 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी।
- आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कोयला, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली उद्योग के बेहतर प्रदर्शन के कारण नवंबर में आठ बुनियादी ढांचा क्षेत्रों का उत्पादन 2021 के समान महीने में 3.2 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 5.4 प्रतिशत बढ़ा है।
- सरकार के आदेश के अनुसार कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स 1,700 रुपये (20.55 डॉलर) से बढ़ाकर 2,100 रुपये (25.38 डॉलर) प्रति टन कर दिया गया है, जो 3 जनवरी से प्रभावी है।
- भारत से तैयार स्टील का निर्यात अप्रैल और दिसंबर के बीच 54.1% कम होकर 4.74 मिलियन टन रह गया, क्योंकि प्रमुख वैश्विक बाजारों के खपत में गिरावट आई है।
- कच्चे तेल के प्रमुख निर्यातक सऊदी अरब ने प्रमुख अरब लाइट क्रूड के लिए कीमतों को कम कर दिया है, जो ओमान/दुबई औसत से 1.80 डॉलर प्रति बैरल अधिक पर एशिया को

बेचता है, जो नवंबर 2021 के बाद सबसे कम है।

- केंद्र सरकार ने सरसों की अच्छी बुआई और वैश्विक स्तर पर खाद्य तेल की कीमतों में नरमी के बाद खाद्य तेल और तिलहन पर भंडारण की सीमा हटा दी है।
- रॉयटर्स के अनुसार, आपूर्ति को आसान बनाने और अनाजों की उच्च मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा खुले बाजार में अपने स्टॉक से 2.1 मिलियन टन गेहूं बेचने की संभावना है।
- एशिया में तीसरे सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक भारत से कॉफी निर्यात 2022 में 1.66 प्रतिशत बढ़कर 4 लाख टन हो गया, जो तत्काल कॉफी निर्यात और पुनः निर्यात में वृद्धि के कारण हुआ। 2021 में निर्यात 3.93 लाख टन रहा।
- सरकारी कंपनी कोचिलको ने कहा कि नवंबर में चिली का तांबे का कुल उत्पादन 6.9% गिरकर 449,000 टन हो गया।

NCDEX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	30.12.22	05.01.23	बदलाव (%)
धान	4117.00	4613.00	12.05%
जीरा	31220.00	33455.00	7.16%
कॉटनऑयलसीडकेक	2985.00	3154.00	5.66%
कॉटन	29030.00	30220.00	4.10%
कपास	1648.00	1676.50	1.73%

MCX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	30.12.22	05.01.23	बदलाव (%)
मेंथा ऑयल	1007.10	1042.90	3.55%
कपास	1620.00	1660.00	2.47%
निकल	2547.00	2595.00	1.88%
सोना गिनी	43401.00	44183.00	1.80%
सोना पेटल	5408.00	5474.00	1.22%

NCDEX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	30.12.22	05.01.23	बदलाव (%)
हल्दी	8276.00	7796.00	-5.77%
ग्वारगम	12713.00	12444.00	-5.70%
ग्वारसीड	5986.00	5914.00	-2.08%
धनिया	8106.00	8026.00	-2.08%
जौ	3035.00	3027.50	-1.88%

MCX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	30.12.22	05.01.23	बदलाव (%)
नेचुरल गैस	377.80	310.00	-17.95%
कच्चा तेल	6555.00	6148.00	-6.21%
एल्युमीनियम	210.35	202.15	-3.90%
तांबा	723.00	721.70	-0.18%

साप्ताहिक समीक्षा

2023 के पहले सप्ताह में एक उठराव देखा गया क्योंकि फेड के मिनट के बाद डॉलर इंडेक्स में उछाल देखा गया। फेड के मिनट के अनुसार नीति निर्माताओं ने अभी भी मूल्य वृद्धि की गति को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया था जिसमें कुछ कमजोर आर्थिक आंकड़ों के बीच प्रत्याशित रूप से अधिक बढ़ोतरी की आशंका है। बुधवार देर रात जारी फेड की नवीनतम नीति बैठक के मिनट में संकेत दिया गया कि केंद्रीय बैंक को ब्याज दर में आक्रामक वृद्धि की गति को धीमा करना चाहिए, लेकिन नीति निर्माता अभी भी मुद्रास्फीति का मुकाबला करने पर अपना ध्यान केंद्रित करने के इच्छुक थे। फेड सदस्यों ने कहा कि वे 'लंबी अवधि के लिए प्रतिबंधात्मक नीति के रुख' के पक्षधर हैं, जब तक कि मुद्रास्फीति 2% तक नीचे की ओर नहीं रुक रही करती है, और इसमें कुछ समय लगने की संभावना है। वैश्विक कमजोरी की खबरों के बीच अमेरिका और यूरोपीय क्षेत्र में हल्के मौसम के कारण ऊर्जा काउंटर फिसल गया। फरवरी 2022 के अंत में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद यूरोप की थोक नेचुरल गैस की कीमतें अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई हैं। हल्की सर्दी ने यूरोपीय संघ के देशों को रूस, जो युद्ध से पहले यूरोपीय संघ का मुख्य आपूर्तिकर्ता था, से आपूर्ति में कटौती की प्रत्याशा में बनाए गए स्टॉक से कम गैस का दोहन करने में सक्षम बनाया है। एमसीएक्स पर गैस की कीमतें 328 के निचले स्तर पर पहुंच गईं और निचले स्तर से रिकवरी भी हुई लेकिन कुल मिलाकर इस सप्ताह कीमतें गिरावट के साथ बंद हुईं। पिछले बुधवार को तेल की कीमतें 4 डॉलर प्रति बैरल से अधिक लुढ़क गईं, जो 3 दशकों से अधिक समय में किसी भी वर्ष के पहले दो कारोबारी दिनों में सबसे अधिक प्रतिशत गिरावट है, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था धीमी होने और चीन में कोविड-19 के मामले बढ़ने के कारण निवेशकों को ईंधन की मांग में कमी की चिंता थी। पिछले सप्ताह ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 9.4% की गिरावट आई है, जो जनवरी 1991 के बाद से वर्ष की शुरुआत में दो दिनों की सबसे बड़ी गिरावट है। चीनी सरकार ने 2023 के लिए पहले बैच में रिफाईंड तेल उत्पादों के लिए निर्यात कोटा बढ़ा दिया है जो घरेलू मांग में कमी का संकेत दिया बेस मेटल में ज्यादातर एक दायरे में कारोबार हुआ क्योंकि कमजोर खबरों ने बढ़त पर रोक लगा दी और आपूर्ति की कमी ने गिरावट को सीमित कर दिया। इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाइ मैनेजमेंट ने कहा कि अमेरिकी मैनुफैक्चरिंग दिसंबर में फिर से कम हुआ है और नवंबर में 49.0 के बाद दिसम्बर में गिरकर 48.4 हो गया, जो मई 2020 के बाद से सबसे कम है। उसी समय, अमेरिकी श्रम विभाग के एक सर्वेक्षण ने दिखाया कि नौकरी के अवसर उम्मीद से कम हो गए, जिससे यह चिंता बढ़ गई कि फेडरल रिजर्व कमजोर श्रम बाजार का उपयोग दरों को लंबे समय तक उच्च रखने के कारण के रूप में करेगा। स्टील की कीमतें पांच सप्ताह की उछाल के बाद एक दायरे में रही।

वृषि कमोडिटीज में, जीरा की कीमतों में छह सप्ताह की जोरदार तेजी के बाद उच्च पक्ष से मुनाफावसूली दर्ज की गई। लेकिन कीमतें साप्ताहिक आधार पर बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब हुईं। सुचारू आपूर्ति से हल्दी की कीमतें गिरावट के साथ बंद हुईं जबकि धनिया की कीमतें एक दायरे में हैं। कीमतों में हाल ही गिरावट के बाद खरीदार सक्रिय हुए। लेकिन बढ़त सीमित रहने की संभावना है, क्योंकि वर्ष 2022 में धनिया के तहत उत्पादन क्षेत्र में तेज वृद्धि के कारण धनिया की उत्पादन संभावनाएं अच्छी दिख रही हैं। अंडी की कीमतों में 6926 के निचले स्तर से रिकवरी हुई और दो सप्ताह की समय सीमा में 7256 के स्तर पर पहुंच गईं। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से ग्वार की शुरुआत भी गिरावट के साथ हुई। कॉटनऑयलसीडकेक की कीमतों में और तेजी दर्ज की गई। हाजिर मांग में सुधार के कारण मेंथा की कीमतों में धीमी लेकिन स्थिर तेजी दर्ज की गई।



हाजिर कीमतें

कमोडिटी	स्थान	30.12.22	05.01.23	(%)
जौ	जयपुर	3022.85	3018.70	-0.14%
चना	दिल्ली	5099.55	5213.30	2.23%
धनिया	कोटा	8376.25	8334.45	-0.50%
क्रूड पॉम ऑयल	कांडला	878.80	864.90	-1.58%
गुड़	मुजफ्फरपुर	1164.00	1162.00	-0.17%
ग्वारसीड	जोधपुर	6000.00	5899.00	-1.68%
ग्वारगम	जोधपुर	12850.00	12603.00	-1.92%
जीरा	ऊंझा	29546.30	33113.30	12.07%
सरसों	जयपुर	6740.70	6500.05	-3.57%
रिफाईंड सोया तेल	मुंबई	1310.00	1280.00	-2.29%
सोयाबीन	इंदौर	5757.00	5763.85	0.12%
हल्दी	निजामाबाद	7400.75	7358.30	-0.57%
गेहूं	दिल्ली	2908.80	2900.00	-0.30%
काँटन	कड़ी	28827.35	30058.35	4.27%
काँटनऑयलसीडकेक	अकोला	3048.45	3190.80	4.67%

LME/ COMEX/ NYMEX में धातुओं की कीमत (डॉलर में)

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	30.12.22	05.01.23	बदलाव (%)
एल्युमीनियम	LME	नकद	2378.00	2255.50	-5.15%
तांबा	LME	नकद	8372.00	8374.50	0.03%
लेड	LME	नकद	2293.00	2217.50	-3.29%
निकल	LME	नकद	30048.00	27748.00	-7.65%
जिंक	LME	नकद	2972.50	3005.00	1.09%
सोना	COMEX	जनवरी	1826.20	1840.60	0.79%
चांदी	COMEX	जनवरी	23.96	23.42	-2.25%
लाइट क्रूड	NYMEX	फरवरी	80.26	73.67	-8.21%
नेचुरल गैस	NYMEX	जनवरी	4.48	3.72	-16.96%

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतें

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	30.12.22	05.01.23	बदलाव (%)
सोयाबीन	CBOT	मार्च	15.24	14.70	-3.54%
सोया तेल	CBOT	मार्च	63.94	62.11	-2.86%
काँटन	ICE	मार्च	88.37	82.58	-6.55%
सीपीओ	BMD	मार्च	4,174.00	4,090.00	-2.01%

गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (NCDEX)

कमोडिटी	यूनिट	29.12.22 क्वांटिटी	05.01.23 क्वांटिटी	अंतर
बाजरा	मी.टन	881	20	-861
कैस्टर सीड	मी.टन	0	0	0
चना	मी.टन	14064	11768	-2296
धनिया	मी.टन	3619	3719	100
काँटनऑयलसीडकेक	मी.टन	0	0	0
ग्वारगम	मी.टन	14670	14226	-444
ग्वारसीड	मी.टन	8831	10038	1207
जीरा	मी.टन	2888	2730	-158
मक्का	मी.टन	215	215	0
सोयाबीन	मी.टन	0	0	0
हल्दी	मी.टन	134	134	0

गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (MCX)

कमोडिटी	यूनिट	30.12.22 क्वांटिटी	05.01.23 क्वांटिटी	अंतर
एल्युमीनियम	मी.टन	3232.955	2449.252	-784
तांबा	मी.टन	2337023	2049421	-287602
सोना	किग्रा	564	544	-20
सोना मिनी	किग्रा	13472	13472	0
सोना गिनी	किग्रा	263700	279700	16000
लेड	किग्रा	413.131	413.131	0
चांदी (30 किग्रा बार)	किग्रा	186264.469	171694	-14571
चांदी एम	किग्रा	40935	176245	135310
जिंक	मी.टन	40934.584	2366.295	-38568

LME में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति(टन में)

कमोडिटी	स्टॉक की स्थिति 30.12.22	स्टॉक की स्थिति 05.01.23	अंतर
एल्युमीनियम	453375	442425	-10950.00
तांबा	86025	88575	2550.00
निकल	55092	55164	72.00
लेड	25000	25150	150.00
जिंक	33825	27750	-6075.00



ट्रेंड शीट

एक्सचेंज	कमोडिटी	कट्रेक्ट	बंद* भाव	ट्रेंड बदलाव की तिथि	ट्रेंड	भाव के ट्रेंड में बदलाव	सपोर्ट	रेजिस्टेंस	क्लोजिंग स्टॉप लास
NCDEX	जीरा	मार्च	34800.00	29.11.22	तेजी	24600.00	33150.00	-	33000.00
NCDEX	हल्दी	अप्रैल	7796.00	13.12.22	तेजी	7900.00	7530.00	-	7500.00
NCDEX	ग्वारसीड	फरवरी	6007.00	10.11.22	तेजी	5183.00	5720.00	-	5700.00
NCDEX	कैस्टरसीड	फरवरी	7120.00	12.12.22	मंदी	7500.00	-	7350.00	7400.00
NCDEX	स्टील लांग	जनवरी	48990.00	26.12.22	तेजी	47300.00	47200.00	-	47000.00
NCDEX	कॉटनऑयलसीडकेक	फरवरी	3040.00	03.10.22	तेजी	2300.00	2930.00	-	2900.00
MCX	मेंथा ऑयल	जनवरी	1042.90	14.12.22	तेजी	995.00	1005.00	-	1000.00
MCX	बुलडेक्स	जनवरी	15372.00	10.11.22	तेजी	14545.00	15130.00	-	15100.00
MCX	चांदी	मार्च	68078.00	10.11.22	तेजी	61911.00	66600.00	-	66500.00
MCX	सोना	फरवरी	55290.00	10.11.22	तेजी	52109.00	54550.00	-	54500.00
MCX	मेटलडेक्स	जनवरी	18371.00	23.06.22	साइडवेज	17963.00	17800.00	18900.00	-
MCX	तांबा	जनवरी	721.70	15.12.22	मंदी	702.00	-	738.50	740.00
MCX	लेड	जनवरी	189.30	15.12.22	साइडवेज	185.50	183.00	193.00	-
MCX	जिंक	जनवरी	270.10	14.12.22	मंदी	286.00	-	289.00	290.00
MCX	एल्युमिनियम	जनवरी	202.15	14.12.22	मंदी	212.00	-	214.00	215.00
MCX	कच्चा तेल	जनवरी	6148.00	14.11.22	मंदी	7250.00	-	6760.00	6800.00
MCX	नेचुरल गैस	जनवरी	310.00	19.12.22	मंदी	480.00	-	390.00	400.00

*05/01/2023 का बंद भाव

नोट: 1. कभी-कभी आप पाओगे कि स्टॉप लास बहुत अधिक है लेकिन यदि हम स्टॉप लास को एक बार बदल दें तो हमें कमोडिटी में पजबूती आती दिखेगी। इस स्थिति में स्टॉप लास अधिक होगा क्योंकि हम सप्ताहिक आधार पर प्राक को देखते हैं और लम्बे समय तक के रुझानों को लेते हैं।
2. इस सप्ताहिक ट्रेंड का मिलान योजना को ट्रेंड से नहीं किया जाना चाहिए, जिसे प्रतिदिन युद्ध को मार्किंग रिपोर्ट के नाम से ई मेल किया जाता है।

टेक्निकल सुझाव

सोना (फरवरी)एमसीएक्स



सोना (फरवरी)एमसीएक्स

उच्चस्तर: 56010.00

निचला स्तर: 55040.00

एमसीएक्स में सोना (फरवरी) कॉन्ट्रैक्ट 05 जनवरी 2023 को 55290.00 रू पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 53797.50 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 62.393 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

56020.00 रू के स्टॉपलॉस के साथ 54500.00 रू के टारगेट के लिए 55500.00 रू के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।

धनिया (अप्रैल) एनसीडीईएक्स



धनिया (अप्रैल) एनसीडीईएक्स

उच्च स्तर: 8868.00

निचला स्तर: 8410.00

एनसीडीईएक्स में धनिया (अप्रैल) कॉन्ट्रैक्ट 05 जनवरी 2023 को 8528.00 रू पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 9370.45 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 47.725 है। दोनों ही इंडिकेटर खरीददारी का संकेत दे रहे हैं।

8400.00 रू के स्टॉपलॉस के साथ 9300.00 रू के टारगेट के लिए 8700.00 रू के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।

जिंक (जनवरी) एमसीएक्स



जिंक (जनवरी) एमसीएक्स

उच्च स्तर: 272.65

निचला स्तर: 265.55

एमसीएक्स में जिंक (जनवरी) कॉन्ट्रैक्ट 05 जनवरी 2023 को 270.10 रू पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 273.91 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 45.584 है। दोनों ही इंडिकेटर खरीददारी का संकेत दे रहे हैं।

260.00 रू के स्टॉपलॉस के साथ 282.00 रू के टारगेट के लिए 267.00 रू के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।



अगले सप्ताह में बाजार का रुख

मसाले

सुस्त घरेलू मांग के कारण हल्दी की कीमतों में गिरावट की संभावना है। फसल की स्थिति में सुधार और मिलों द्वारा आवश्यकतानुसार खरीदारी से निकट भविष्य में कीमतों पर दबाव रहने की संभावना है। मार्च-23 में नए फसल सीजन की शुरुआत के मद्देनजर स्टॉकियों द्वारा अपना स्टॉक जारी करने की उम्मीद है। लेकिन बेहतर मांग की संभावनाओं को देखते हुए नुकसान सीमित रहने की संभावना है। भारत में कोविड-19 के फिर से उभरने की बढ़ती आशंका के साथ स्वास्थ्य देखभाल उद्योग से मांग बढ़ने की संभावना है क्योंकि इसका उपयोग कोविड के खिलाफ प्रतिरक्षा बूस्टर के रूप में किया जाता है। कीमतों में हाल ही में गिरावट और कमजोर उत्पादन अनुमान के बाद बढ़ी हुई निर्यात मांग के कारण कीमतों में बड़ी गिरावट को रोक सकती है। भारत ने जनवरी 22-अक्टूबर 22 के दौरान लगभग 99 हजार टन हल्दी का निर्यात किया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 89 हजार टन निर्यात हुआ था। हल्दी वायदा (अप्रैल) की कीमतों के 7400-8300 के दायरे में कारोबार करने की उम्मीद है।

जीरा (मार्च) वायदा की कीमतों के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद मुनाफा वसूली हुई है। मजबूत निर्यात मांग और हाजिर बाजार में आपूर्ति की कमी से जीरे की कीमतों में तेजी आई। जीरा में फिर से कुछ मुनाफावसूली देखी जा सकती है क्योंकि कीमतों में हाल ही में बढ़त के बाद स्टॉकियों ने अपने स्टॉक जारी करना शुरू कर दिया है। अधिक कीमतों के कारण छोटे खरीदार थोक खरीदारी से दूर हैं। लेकिन, आपूर्ति संबंधी चिंताओं के कारण जीरा की कीमतों में अभी भी तेजी का रुख है। 2 जनवरी 23 तक 26 दिसंबर 22 तक गुजरात में पिछले वर्ष के 3.0 लाख हेक्टेयर की तुलना में लगभग 2.74 लाख हेक्टेयर में जीरे की बुवाई की गई, जो साल-दर-साल 10% कम है। जीरा की कीमतों के 33000-36000 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

हाजिर बाजार में कमजोर मांग के कारण धनिया वायदा (अप्रैल) की कीमतों में कमजोरी के साथ कारोबार करने की संभावना है। धनिया के तहत उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि की रिपोर्ट और सामान्य फसल प्रगति से बेहतर उपज की संभावनाएं बाजार के सेंटीमेंट को प्रभावित सकती है। 2 जनवरी 23 तक गुजरात में धनिया के तहत बुआई क्षेत्र में तेजी से उछाल आया, जो पिछले वर्ष के 1.25 लाख हेक्टेयर की तुलना में 2.21 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया, जो कि वर्ष-दर-वर्ष 78% अधिक है। बढ़ते आयात के कारण प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर आपूर्ति पर्याप्त है जो खरीदारों को थोक खरीद से दूर रखे हुए है। धनिया की कीमतों के 8400-9300 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

अन्य कमोडिटीज

आपूर्ति में बढ़ोतरी के अनुमान के कारण एनसीडीईएक्स पर कपास वायदा(अप्रैल) की कीमतों में नरमी के रूझान के साथ कारोबार होने की उम्मीद है। आवक घटकर 1 लाख गांठ/दिन रह गई है, जिससे कपास की कीमतों में गिरावट पर रोक लग गई है। पिछले वर्ष की 140 लाख बेल की तुलना में दिसंबर-22 तक कपास की आवक कुल 80-85 लाख बेल दर्ज की गई थी। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों और मंदी पर बढ़ती अनिश्चितता के कारण सुस्त मांग की चिंताओं से मिलें भारी खरीदारी से दूर रही। कम दर पर बिकवाली के हंगामे से किसान दूर रहे। भौतिक बाजार में आपूर्ति की कमी के मद्देनजर, भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया से 3 लाख बेल कपास के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी है। ऑस्ट्रेलिया से कपास के आयात से न केवल आपूर्ति बढ़ेगी बल्कि घरेलू कीमतों पर भी दबाव पड़ेगा। कपास की कीमतों को 1740 के स्तर पर रजिस्ट्रेंस का सामना करने की संभावना है और वहां से 1650 की ओर गिरावट की उम्मीद है।

हाजिर बाजारों में सुस्त मांग के कारण कॉटनसीडऑयल केक (फरवरी) वायदा की कीमतों में नरमी रहने की संभावना है। कीमतों में हाल के बढ़त के कारण स्टॉकिस्ट थोक खरीद से बच रहे हैं, जहां मार्च में सरसों की फसल शुरू होने के मद्देनजर पशु आहार उद्योग की ओर से मांग भी कम है। सरसों मील चारा उद्योग में कॉटनसीडऑयल केक का प्रमुख विकल्प रहा है। लेकिन किसान कपास को बाजार में जारी करने से हिचक रहे हैं जिससे कीमतों में बड़ी गिरावट पर रोक लग सकती है। कीमतों के 2900-3300 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

बाजार में ताजा संकेतों के अभाव में ग्वारसीड (फरवरी) वायदा कीमतों के साइडवेज कारोबार करने की संभावना है। मंदी के बढ़ते डर से ग्वारगम की निर्यात मांग कम रहेगी जिससे कीमतों पर दबाव रह सकता है कीमतों में अधिक गिरावट के डर से स्टॉकिस्ट अपने स्टॉक जारी कर सकते हैं। लेकिन ग्वारसीड के कम उत्पादन से लंबी अवधि में तेजी का रुख बना रहेगा। ग्वारसीड की कीमतों के 5800-6400 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

स्थानीय बाजार में खरीदारी बढ़ने से मंथा ऑयल (जनवरी) वायदा में मिला-जुला कारोबार होने की संभावना है। वर्ष 2022 में कम उत्पादन के कारण आपूर्ति कम रही है जिससे आवक की गति भी प्रभावित हुई है। कीमतों के 1020-1070 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

सुस्त निर्यात मांग के कारण अरंडी (फरवरी) की कीमतों में नरमी के साथ कारोबार होने की संभावना है। मंदी के बढ़ते डर और चीन में कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों से अरंडी के तेल की निर्यात मांग कम रहने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप पेराई गतिविधियों में गिरावट आई है। जनवरी के बाद अरंडी की नई फसल शुरू होने के मद्देनजर मिलें थोक खरीद से बच रही हैं। हाजिर बाजार में आपूर्ति की कमी से कीमतों में बड़ी गिरावट पर रोक लगने की संभावना है। अरंडी की कीमतें 6900-7400 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

सर्पाफा

सोने की कीमतों में लगातार तीसरे हफ्ते बढ़ोतरी हुई जबकि निवेशकों को फेडरल रिजर्व की दर-वृद्धि के रुख को जानने के लिए अमेरिकी नौकरियों की प्रमुख रिपोर्ट का उत्सुकता से इंतजार था। बाजार का ध्यान अमेरिकी श्रम विभाग के गैर-कृषि पेरॉल के आंकड़ों पर भी रहा है। अमेरिकी निजी पेरॉल दिसंबर में अपेक्षा से अधिक बढ़ गए, जबकि बेरोजगार लाभ के लिए नए दावे दाखिल करने वाले अमेरिकियों की संख्या पिछले सप्ताह तीन महीने के निचले स्तर पर आ गई, जो अभी भी कमजोर श्रम बाजार की ओर इशारा करता है जो फंड को ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने के लिए मजबूर कर सकता है। कुछ फंड अधिकारियों ने गुरुवार को मुद्रास्फीति को कम करके 2% के लक्ष्य पर वापस लाने के लिए अपनी लड़ाई को दोहराया, लेकिन सेंट लुइस नेता जेम्स बुलार्ड ने कहा कि 2023 अंततः मुद्रास्फीति के मोर्चे पर कुछ स्वागत योग्य राहत ला सकता है। अपेक्षा से अधिक नौकरी और निरंतर अधिक वेतन सोने पर दबाव बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। नवंबर के बाद से सोने की कीमतों में तेजी देखी जा रही है क्योंकि डॉलर की तेजी और यील्ड में कमी आई है। 2023 में, सोने की कीमतें खरीदारों का आकर्षित करना जारी रख सकती हैं, लेकिन नीति निर्माताओं की ओर से भारी विरोध के कारण इसे कुछ जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। बेंचमार्क 10 साल की यील्ड कम हो रही है। तकनीकी मोर्चे पर, कोमेक्स में सोने की कीमतें 1810-1860 के व्यापक दायरे में कारोबार कर रही है, और दोनों तरफ दायरे को तोड़ने पर अगले रुझान की दिशा तय होगी। कॉमेक्स पर चांदी की कीमतें मंदी के रूझान के साथ कारोबार कर सकती है और 22.000 डॉलर तक लुढ़क सकती है और 24.020 डॉलर के पास रजिस्ट्रेंस का सामना कर सकती है। आने वाले सप्ताह में सोना नरमी के रूझान के साथ 53600-56000 के दायरे में कारोबार कर सकता है। चांदी में बिकवाली हो सकती है और कीमतें 66500-71500 के दायरे में कारोबार कर सकती है।

एनर्जी कॉम्प्लेक्स


चीन में बढ़ते कोविड मामलों और विश्व स्तर पर धीमी होती अर्थव्यवस्थाओं के कारण निकट अवधि में वैश्विक स्तर पर तेल मांग के बारे में चिंता के कारण कच्चे तेल की कीमतें 7% के करीब फिसल गईं। अमेरिकी बेंचमार्क, डब्ल्यूटीआई कच्चे तेल की कीमतें 75 डॉलर प्रति बैरल और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें 80 डॉलर से नीचे लुढ़क गईं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से निराशाजनक आर्थिक अनुमानों, चीन और वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति और मजबूत अमेरिकी डॉलर के कारण 2023 के शुरुआती हफ्तों में तेल की कीमतों में बिकवाली हुई। चीन में कोविड के बढ़ते मामले और चीनी अर्थव्यवस्था में मंदी से तत्काल अवधि में तेल की मांग और कीमतों पर दबाव पड़ने की उम्मीद है। बाजार वर्तमान में मांग में एक अल्पकालिक गिरावट पर केंद्रित है क्योंकि चीन कोविड-19 के साथ संघर्ष कर रहा है, जबकि हल्के मौसम में हीटिंग ईंधन की मांग कम हो जाती है, और आईएमएफ को नवीनतम चेतावनी है कि दुनिया के एक तिहाई हिस्से को 2023 में मंदी का सामना करना पड़ सकता है। यूएस एनर्जी इंडॉमेन्शन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार 30 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में डिस्टिलेट भंडार 396,000 बैरल की गिरावट की उम्मीद के मुकाबले 1.4 मिलियन कम हो गया है। इस बीच, अमेरिकी गैसोलीन स्टॉक 486,000 बैरल की गिरावट के विश्लेषकों की उम्मीदों की तुलना में 346,000 बैरल कम हो गया। इस सप्ताह में कीमतों में बिकवाली जारी रह सकती है लेकिन निचले स्तरों से कुछ शॉर्ट कवरींग की उम्मीद है। कच्चे तेल की कीमतें 5800-6500 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। नेचुरल गैस की कीमतों में 18% से अधिक की गिरावट हुई है क्योंकि पिछले कई दिनों में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप दोनों में तापमान गर्म रहा है। इसके अलावा, वैश्विक स्तर पर आर्थिक गतिविधि धीमी हो रही है, और इसका मतलब है कि हमारे पास नेचुरल गैस की मांग और भी कम होगी। अगले सप्ताह नेचुरल गैस की कीमतों में नरमी के रूझान के साथ कारोबार जारी रहेगा और कीमतें 270-340 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।



बेस मेटल

बेस मेटल की कीमतें तेजी के रुझान के साथ कारोबार कर सकती है क्योंकि क्योंकि निवेशक उम्मीद कर रहे हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रयासों से धातुओं की मांग में सुधार होगा। अर्थशास्त्रियों और विश्लेषकों का मानना है कि चीन में नीति निर्धारक इस वर्ष मांग को प्रोत्साहित करने के लिए और अधिक समर्थन उपायों को लागू करेंगे, बीजिंग के कुल लक्ष्य के हिस्से के रूप में +17 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को तेज कोविड से प्रभावित मंदी के बाद मजबूत करना है। लेकिन चीन में कोविड-19 मामलों में उछाल और अगले महीने चंद्र नववर्ष की छुट्टी से दुनिया के औद्योगिक धातुओं के शीर्ष उपभोक्ता में धातुओं की मांग कम होने की उम्मीद है। क्रय प्रबंधकों (पीएमआई) के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि चीन के मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र की गतिविधि दिसंबर में तेज गति से कम हुई, क्योंकि कोविड संक्रमण बढ़ने से उत्पादन बाधित हुआ और मांग पर दबाव पड़ा। तांबे की कीमतें 705-740 के दायरे में कारोबार कर सकती है। धातु प्रसंस्करण संयंत्रों के उपग्रह निगरानी के आंकड़ों से पता चलता है कि एक साल की सुस्त गतिविधि के बाद रख-रखाव के लिए स्मेल्टरों के बंद होने के कारण वैश्विक स्तर पर तांबा गलाने की गतिविधि दिसंबर में कम हो गई थी। उत्पादन के मोचे पर, सरकारी निकाय कोचिल्लको के अनुसार चिली का कुल तांबे का उत्पादन नवंबर में 6.9% गिरकर 449,000 टन हो गया है। जिंक की कीमतें 265-280 के दायरे में कारोबार कर सकती है। नवंबर 2022 में चीन का रिफाईंड जिंक का आयात 11,600 मिलियन टन था, जो महीने-दर-महीने 1,054.62% की वृद्धि थी, लेकिन साल-दर-साल 44.77% की कमी हुई है। लोड की कीमतें 182-195 के दायरे में कारोबार कर सकती है। एल्युमीनियम की कीमतों के नरमी के रुझान के साथ 195-215 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है। कुछ जापानी एल्युमीनियम खरीदार वैश्विक उत्पादकों को जनवरी-मार्च शिपमेंट के लिए बेंचमार्क मूल्य पर 86 डॉलर प्रति टन के प्रीमियम का भुगतान करने पर सहमत हुए हैं, जो मौजूदा तिमाही से 13% कम है। एनसीडीईएक्स पर स्टील लॉन्ग (जनवरी) की कीमतें 47200-49500 के दायरे में कारोबार कर सकती है।

2022 में कमोडिटीज की कीमतों में बदलाव (एमसीएक्स और एनसीडीईएक्स पर)



स्रोत: रॉयटर एवं एसएमसी रिसर्च

12% की वृद्धि हुई और यह पांच वर्ष के औसत स्तर की तुलना में अधिक रही, जिससे वर्ष 2022 के अधिकांश समय में हल्दी की कीमतें कम रहीं।

वर्ष 2022 के अधिकांश समय में ग्वार समूह की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई क्योंकि आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती और कच्चे तेल की कीमतों में लगातार कमजोरी से बाजार का सेंटीमेंट प्रभावित हुआ। लेकिन अक्टूबर-22 से शुरू हुए नए फसल सीजन में कीमतों में तेजी से सुधार हुआ है। अगस्त 22-दिसंबर-22 के दौरान राजस्थान में वर्षा के असमान वितरण ने उपज को बुरी तरह प्रभावित किया, जिससे बाद में बंपर उत्पादन की संभावनाएं खत्म हो गईं।

वर्ष 2022 कुछ गंभीर धार्मिक-ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह बना, जिसने पूरी दुनिया और वित्तीय बाजार को अस्त-व्यस्त रखा। कमोडिटीज पर भी दबाव महसूस किया गया। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत के साथ ही पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया था क्योंकि ये दोनों देश दुनिया में रोटी की टोकरी के रूप में विख्यात हैं। कई तरह के प्रतिबंधों के बीच उच्च मांग और रिकॉर्ड आवागमन शुल्क के अलावा के कई कमोडिटीज की कीमतों में ऐतिहासिक ऊंचाई दर्ज की गई और बढ़ती मुद्रास्फीति ने पूरी दुनिया को अपने चंगुल में ले लिया। मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए प्रमुख केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों में वृद्धि की और इस तरह “कम ब्याज दर वाले युग” का अंत हो गया है।

सोने को मुद्रास्फीति के खिलाफ ढाल के रूप में देखा जाता है और निराशाजनक स्थितियों के दौरान पोर्टफोलियो का एकमात्र रक्षक है। 2022 की पहली तिमाही में सोने की कीमत 55,558 रू के उच्च स्तर पर पहुंच गई, इसके बाद अधिक बॉन्ड यील्ड और मजबूत डॉलर के कारण सितंबर 2022 के महीने में कीमतें 48972 रू के निचले स्तर पर आ गईं। लेकिन केंद्रीय बैंक की ओर से नीति में बदलाव की उम्मीद के कारण नवंबर के बाद से फिर से खरीदारी देखी गई। अंततः एमसीएक्स पर सोने की कीमतें 14 से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुईं। चांदी की कीमतों में भी लगभग 11% की बढ़त दर्ज की गई।

2022 की पहली तिमाही में कच्चे तेल की कीमतों में आश्चर्यजनक तेजी देखी गई और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण ऊर्जा की आपूर्ति को खतरा पैदा हो जाने से मार्च के महीने में एमसीएक्स पर यह अब तक के उच्च स्तर 9996 रू पर पहुंच गई। वैश्विक आर्थिक विकास और मांग संबंधी व्यापक चिंताओं के कारण कीमतों में गिरावट हुई, और इसके बाद से कीमतों का प्रदर्शन उठा-पटक वाला रहा है। लेकिन सबसे जोरदार प्रदर्शन करने वाली कमोडिटी नेचुरल गैस रही जो रूस एवं यूक्रेन के बीच संघर्ष के कारण निम्न स्तर से उच्च स्तर तक 189% से अधिक की जबरदस्त उछाल दर्ज की है। लेकिन कम होती मांग और उच्च स्तर पर मुनाफा वसूली के कारण 37% की बढ़त दर्ज की गई है।

वर्ष 2022 में जीरा सबसे अधिक आकर्षण के केंद्र में रहा है जिसने अधिक निर्यात मांग और पूरे भारत के प्रमुख उत्पादक राज्यों में उत्पादन कम होने से आपूर्ति की चिंताओं के कारण 103% से अधिक की जोरदार तेजी देखी गई। हल्दी की चमक फीकी पड़ गई क्योंकि कुल आपूर्ति में वर्ष-दर-वर्ष



एसएमसी रिसर्च डेस्क

आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- www.smctradeonline.com



Corporate Office:
11/6B, Shanti Chamber,
Pusa Road, New Delhi - 110005
Tel: +91-11-30111000
www.smcindiaonline.com

Mumbai Office:
Lotus Corporate Park, A Wing 401 / 402, 4th Floor,
Graham Firth Steel Compound, Off Western
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon
(East) Mumbai - 400063
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

Kolkata Office:
18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,
5th Floor, Kolkata-700001
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का निम्न भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाएँ और संबंधित सेवाएँ करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉम्प्लेक्स नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एससीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की सदस्य हैं। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मंचेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड सेबी (रिसर्च एनालिस्ट) रेगुलेशन 2014 के तहत रिसर्च एनालिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एथॉरिटी द्वारा सिम्प्लिफाइड मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निलंबित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसर्च एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री की शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार को परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसर्च एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय हैं।

डिसक्लेमर: यह रिसर्च रिपोर्ट अधिकृत प्राप्तकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक को किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सल्यूटेशन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाने गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉर्पोरेट या सत्ता की जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश की वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसकी (अ)समय-समय पर किसी भी कमोडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या बिक्री, कोई भी पोजिशन हो सकती है और वह इस कमोडिटीज को खरीद या बिक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौचों में और ट्रोकरेंज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।